



OM INFRA LIMITED

(Formerly known as OM METALS INFRAPROJECTS LIMITED)
CIN: L27203RJ1971PLC003414

Regd. Office: 2nd Floor, A-Block, Om Tower, Church Road, M.I. Road, Jaipur-302001
Tel:+91-141-4046666
Website: www.ommetals.com E-Mail Id: info@ommetals.com

Date : 9/09/2024

To,

Corporate Service Department, Bombay Stock Exchange, Phiroze Jeejeebhy Towers, Dalal Street, Mumbai-400001 Fax No. 022- 22723121/3027/2039/2061/2041 Scrip code: 531092	Listing Department, National Stock Exchange Of India Limited Exchange Plaza, C-1 Block G Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai Fax No. 022- 26598237/38;66418126 NSE Symbol: OMINFRAL
---	---

Dear sir/Ma'am

Sub: Submission of copies of newspaper advertisement pursuant to regulation 30 & 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015

Pursuant to regulation 30 & 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of the public notice published by the Company by way of advertisement in newspaper viz., "Financial Express" (English) and Business Remedies (Hindi) dated September 9, 2024.

Please take the same on the records.

Thanking you

For Om Infra Limited

VIKAS
KOTHARI

Digitally signed by
VIKAS KOTHARI
Date: 2024.09.09
16:58:33 +05'30'

Vikas Kothari
Managing Director & CEO
DIN : 00223868

Trump pledges '100% tariff' for nations that shun dollar

STEPHANIE LAI
September 8

DONALD TRUMP PLEDGED on Saturday to make it too costly for countries to shift away from using the US dollar, adding a new pillar to his tariff platform. "You leave the dollar and you're not doing business with the United States because we are going to put a 100% tariff on your goods," the Republican presidential nominee said at a rally in the battleground state of Wisconsin.

The statement follows months of discussions between Trump and his economic advisers on ways to penalise allies or adversaries who seek active ways to engage in bilateral trade in currencies other than the dollar. Options have included export controls, currency manipulation charges and tariffs, people familiar with the matter have previously told Bloomberg News.

Trump, who has long embraced protectionist trade policies, said the dollar has been "under major siege" for eight years. China, India, Brazil, Russia and South Africa discussed de-dollarisation at a



Republican presidential nominee Donald Trump speaks during a campaign event at Central Wisconsin Airport in Mosinee. AP/PTI

summit last year. By contrast, Trump has said he wants the dollar to remain the world's reserve currency, a pledge he renewed at Saturday's rally.

While dollar dominance has lessened in recent decades, the US currency still accounted for 59% of official foreign-exchange reserves in the first quarter of 2024, with the euro second at almost 20%, according to the International Monetary Fund.

Wisconsin is one of the

most critical swing states in the race between Trump and Democratic rival Kamala Harris. The two are fighting for the support of the state's working-class voters, uneasy with President Joe Biden's economic agenda and drawn to Trump's populist appeals.

Bloomberg News/Morning Consult poll released last week showed Harris leading in Wisconsin by 8 percentage points, the largest lead over Trump she has among the seven battle-

Trump leads Harris in national poll

REPUBLICAN PRESIDENTIAL nominee Donald Trump leads Vice President Kamala Harris in a new national poll by the New York Times and Siena College, as the US election enters its final stretch. The survey of 1,695 registered voters shows support for Trump at 48% against 47% for Harris. —BLOOMBERG

ground states in the poll.

Trump's Wisconsin rally caps off a campaign swing that included Pennsylvania and North Carolina, as well as a stop in his hometown of New York City where he delivered an economy-focused address and held a press conference.

Harris spent Saturday in Pennsylvania preparing for a Tuesday debate with Trump, the next big test that could change the course of the close race. —BLOOMBERG

QUICK PICKS

Venezuela Opp leader seeks asylum in Spain

VENEZUELAN OPPOSITION PRESIDENTIAL candidate Edmundo Gonzalez fled into Spain to seek asylum, Madrid said, hours after quitting his country amid a political and diplomatic crisis. —REUTERS

Iran denies supplying Russia with missiles

IRAN DENIED REPORTS it supplied Russia with ballistic missiles, saying it doesn't provide military support to either side in the Russia-Ukraine war. —BLOOMBERG

Tebboune to serve 2nd term as Algeria president

PRESIDENT ABDELMAJID TEBBOUNE has been named the winner of Algeria's presidential election, granting him another term leading the gas-rich North African nation. —AP

Starbucks turns to CEO as it lacks with mobile orders

TO HOWARD SCHULTZ, the chaos he observed at a Starbucks in Chicago one recent morning summed up the troubles of the company he longed as chairman and CEO.

Commuters tumbled off trains and into a Starbucks store to pick up the orders they had placed on their cellphones. Drinks weren't ready when the mobile app said they would be. Customers couldn't tell which beverage was theirs.

"Everyone shows up and all of a sudden we've got a mosh pit," Schultz said during a June episode of the podcast "Acquired." "That's not Starbucks." Fifty-three years after its founding, the Seattle coffee giant is unhappy with what it's become — and trying to figure out how to meet customers' changing needs without losing its coffeehouse roots. To recapture what once made it special — and turn around sagging sales — Starbucks is turning to Brian Niccol, an experienced marketer who previously led Taco Bell and Chipotle.



Brian Niccol has previously led Taco Bell and Chipotle

Niccol takes over as Starbucks' chairman and CEO on Monday.

With nearly 40,000 stores around the world, Starbucks feels like it's on nearly every corner, but its premium prices are a turnoff to many customers who just want a quick jolt of caffeine, analysts say. Chris Kayes, a professor of management at The George Washington University, called Niccol a highly regarded "celebrity CEO" who has proven he can turn around a struggling company. —AP

VW: EU market shrinking amid competition

VOLKSWAGEN'S CEO, WHO is pushing for unprecedented cutbacks in the German car-maker's home market, said change was needed because the European market is shrinking while competition is increasing. Speaking in an interview in Sunday paper Bild am Sonntag, Volkswagen CEO Oliver Blume said "the pie has become smaller, and we have more guests at the table." "Fewer cars are being sold in Europe. At the same time, new competitors from Asia are forcefully pushing into the market," he was quoted as saying. Volkswagen said on Monday it was considering taking the unprecedented step of closing factories in Germany and ending job guarantees at six of its plants in a drive to deepen a 10-billion euro (\$11 billion) cost-cutting plan. —REUTERS

Boeing marks early deal in hope to avert strike

ALLISON LAMPERT & DAVID SHEPARDSON
September 8

BOEING SAID ON Sunday it had reached a tentative agreement with a union representing more than 32,000 workers in the US Pacific Northwest, in a deal that could help avert a possible crippling strike as early as September 13.

The proposed four-year agreement, which includes a general wage increase of 2.5%, 12 weeks of paid parental leave, and improved job security, would need to be approved on Thursday by Boeing factory workers near Seattle and Port-

land represented by the International Association of Machinists and Aerospace Workers (IAM).

An accepted deal would secure labour peace for Boeing at a time when the planemaker is burning cash and trying to raise production of its strongest-selling 737 MAX to a target rate of 38 aircraft a month by the year's end.

Although the union had asked for a 40% raise in their first full negotiation with Boeing in 16 years, it made other gains, like obtaining a seat at the table regarding the safety and quality of the production system. —REUTERS

China plans to allow hospitals owned by foreigners

REUTERS
Beijing, September 8

CHINA ON SUNDAY said it would allow the establishment of wholly foreign-owned hospitals in nine areas of the country including the capital, as Beijing tries to attract more foreign investment to boost its flagging economy.

In a document on the official website of China's commerce ministry, it said the new policy was a pilot project designed to implement a pledge the ruling Communist Party's Central Committee led by Xi Jinping made at its July plenum meeting held roughly every five years.

"In order to...introduce foreign investment to promote the high-quality development of China's medical-related fields, and better meet the medical and health needs of the people, it is planned to carry out pilot work of expanding opening-up in the medical field," according to the document.

The project will allow the establishment of such hospitals in Beijing, Tianjin, Shanghai, Nanjing, Suzhou, Fuzhou, Guangzhou, Shenzhen and Hainan — all relatively wealthy cities or provinces in eastern or southern China.

The new policy excludes hospitals practicing traditional Chinese medicine and "mergers and acquisitions of public hospitals," the document read, adding that the specific conditions, requirements and procedures for setting up such foreign-owned hospitals would be detailed soon.

The policy also allows companies with foreign investors to engage in the development and application of gene and human stem cell technologies for treatment and diagnosis in the pilot free-trade zones of Beijing, Shanghai, Guangdong, and Hainan.

NMDC Limited
(A Govt. of India Enterprise)
'Khanji Bhavan', 10-3-311/A, Castle Hills, Masab Tank, Hyderabad-500028
CIN:L13100TG1958GOI001674.

WORKS DIVISION CONTRACTS DEPARTMENT
e-Tender Notification (Open Tender Enquiry for Domestic Bidding)

Tender Enquiry No: HO(Works)/Contracts/Comm/2024/1048/217 Dated: 09/09/2024
MSTC Event No.: NMDC/Head Office/Contract/16/24-25/ET/431(APPT OF CONSIGNMENT AGENT)

Estimated Cost (including GST) : Rs. 44.60 Crore

NMDC Limited, A "NAVARATNA" Public Sector Company under Ministry of Steel, Govt. of India, invites online bids through MSTC Portal from experienced, reputed and competent domestic bidders for the work of "Engagement of a Consignment Agent at Hyderabad for handling of approximately 6 lakh Tons per year of HR products for NMDC for a period of 2 years" The detailed NIT and Bid documents can be viewed and / or downloaded from 09/09/2024 to 23/09/2024 from following website links:
1. NMDC website <https://nmcdportals.nmdc.co.in/nmcdtender/>
2. Central Public Procurement portal <https://www.eprocure.gov.in/epublish/app> and search tender through tender enquiry number
3. MSTC portal <https://www.mstccommerce.com/eproc/>

For accessing the bid document from MSTC portal, bidders to visit MSTC website and search Tender Event No. NMDC/Head Office/Contract/16/24-25/ET/431 (APPT OF CONSIGNMENT AGENT)

The bidders are requested to submit their bids online through MSTC portal only. The details of submission of bid through online are given in NIT. The Bidders on regular basis are required to visit the NMDC's website / CPP Portal / MSTC website for corrigendum, if any, at a future date.

For further clarification, the following can be contacted:
GM (C, P & S), NMDC Limited, Hyderabad. Tel No. 040-23533536, email: contracts@nmdc.co.in
Executive Director (Works)

OM INFRA LIMITED
(Formerly known as OM METALS INFRAPROJECTS LIMITED)
CIN: L27203RJ1971PLC003414
Regd. Office: 2nd Floor, A-Block, Om Tower, Church Road, M.I. Road, Jaipur-302001 | Tel: +91-141-4046666
Website: www.ommetals.com | E-Mail ID: info@ommetals.com

Notice of the 52nd Annual General Meeting (AGM), Remote e-Voting Information & Dividend

- 52nd Annual General Meeting (AGM) of Members of Om Infra Limited will be held on Monday, 30 September 2024 at 12:30 p.m. IST through "Video Conferencing ("VC") Other Audio Visual Means ("OAVM") facility without the physical presence of the Members, in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013, read with MCA Circular Nos. 09/2023 dated September 25, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and SEBI/HO/CFD/PoD-2/PI/CIR/2023/167 dated October, 2023 issued by the SEBI (hereinafter collectively referred to as "the circulars") and all other applicable laws.
- The Notice and Annual Report of the Company for the financial year ended 31st March, 2024 and other documents required to be attached thereto have been sent on 7th September, 2024 only by electronic mode to those members whose email addresses are registered with the Company/ Depository in accordance with the Ministry of Corporate Affairs (MCA) circulars and SEBI circulars. Members who have not registered their E-Mail address are requested to register the same in respect of the shares held in electronic form with the depository through their Depository Participant and in respect of shares held in physical form by writing to M/s Skyline Financial Services Private Limited, Registrar and Transfer Agents of the Company at admin@skylinerta.com along with a copy to the Company at cs@ommetals.com.
- The Annual Report along with Notice of AGM is also available on the Company's website www.ommetals.com and on the website of Stock Exchanges i.e. BSE limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited www.nseindia.com.
- The shareholders who wish to attend the AGM through Video Conferencing ("VC") Other Audio Visual Means ("OAVM") are requested to go through the procedure laid down in the Notice of 52nd AGM. Transaction of all business of the AGM through remote e-Voting is arranged to the Members through National Securities Depository Limited (NSDL). The remote e-Voting will be available from **Thursday 26, 2024 at 9:00 AM and ends on Sunday, September 29, 2024 at 5:00 PM**. This facility will not be available thereafter. The procedure for remote e-voting along with the manner in which the members holding shares in physical form or who have not registered their E-Mail ID can cast their vote through e-Voting is provided in the notice of 52nd AGM.
- The members who have not cast their votes by remote e-Voting can exercise e-voting during the AGM. The procedure for e-voting during the AGM is the same as that of the instructions mentioned for remote e-voting.
- The cut-off date for reckoning the eligibility of members for voting is **Monday, 23 September, 2024**. Any person holding shares in the Company at the close of business hours on the cut-off date alone is eligible for voting through remote e-voting or e-voting on the day of the AGM.
- Any person who has acquired shares after the dispatch of the notice may obtain the User ID and password by sending an email request to <https://www.evoting.nsdl.com> or info@skylinerta.com.
- Notice is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of The Companies (Management and Administration) Rules 2014 and Regulation 42 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, that Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Tuesday, 24th September 2024 to Monday, 30th September 2024 (both days inclusive)**.
- The Final Dividend if approved will be paid to such of the members, whose names appear in the Register of the Members of the Company as on **Monday, 23 September, 2024**. In respect of shares held in dematerialized form, the dividend will be paid on the basis of beneficial ownership as per the details furnished by the Depositories for this purpose at the end of business hours on **Monday, 23 September, 2024**.

Pursuant to Income Tax Act, 1961 (the Act), as amended by the Finance Act, 2020, dividend income will be taxable in the hands of shareholders w.e.f. April 1, 2020 and the Company is required to deduct tax at source from dividend paid to shareholders at the prescribed rates. The TDS rates may vary depending upon the residential status of the Shareholder and the documents submitted by them. Accordingly Final Dividend if approved by the members will be paid after deducting TDS.
- Members who hold shares in dematerialized form and want to provide/change/correct their bank account details should send the same immediately to the concerned Depository Participant and not to the Company. Members are also requested to give the MICR Code of their Bank to the Depository Participant. While making payment of Dividend, the RTA is obliged to use only the data provided by the depositories, in case of such dematerialized shares. Members who are holding shares in Physical form are advised to submit particulars of their Bank Account viz. name and address of the branch of the Bank, MICR Code of the branch, type of Account and Account Number to RTA at admin@skylinerta.com along with a copy to the Company at cs@ommetals.com.
- For any queries/clarifications please contact : NSDL on evoting@nsdl.co.in/1800-222-990 or contact Mr. Amit Vishal, Senior Manager – NSDL at amit@nsdl.co.in/022-24994360/ +91 9920264780 or Mr. Sagar Ghosalkar, Assistant Manager- NSDL at sagar.ghosalkar@nsdl.co.in/022-24994553/+91 9326781467

For Om Infra Limited
Sd/-
Dharam Prakash Kothari
Chairman
DIN: 00035298

Place : New Delhi
Date : 07.09.2024

Form No. INC-26
(Pursuant to rule 30 of Companies (Incorporation) Rules, 2014)
Before The Regional Director,
Northern Region, New Delhi

In the matter of sub-section (4) of section 13 of Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 AND

In the matter of CERITA HOLDINGS PRIVATE LIMITED (CIN: U7140DL2012 PTC246155) having its registered office situated at L-1/18, GF Hauz Khas Enclave Hauz Khas, Delhi-110016

.....Applicant Company/ Petitioner

NOTICE is hereby given to the General Public that the Cerita Holdings Private Limited ("Company") proposes to make application to the Central Government (Regional Director) under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra ordinary general meeting held on 19th August 2024 to enable the Company to change its Registered Office from the "Union Territory of Delhi" to the "Union Territory of Chandigarh."

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the Company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, B-2 Wing, 2nd floor, Pt. Deendayal Artyodaya Bhawan, 2nd floor, CGO Complex, New Delhi - 110003 within fourteen days of the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at the address mentioned below:

L-1/18, GF Hauz Khas Enclave Hauz Khas, Delhi-110 016

For and on behalf of
For Cerita Holdings Private Limited
Sd/-
Rajinder Kumar Aggarwal (Director)
Date: 09-09-2024
DIN: 00744827
Place: Delhi

NaBFID National Bank for Financing Infrastructure and Development

Infrastructure Conclave 2024

A New Annual Milestone in India's Infrastructure Space

BUILDING INDIA BETTERING LIVES

A premier platform for key stakeholders from the BFSI, infrastructure sectors, academia and government bodies to collaborate, share insights, and shape the future of India's infrastructure landscape.

Key Speakers

- Mr. M. Nagaraju, Secretary, Dept. of Financial Services
- Ms. Madhabi Puri Buch, Chairperson, SEBI
- Mr. Rajeshwar Rao, Deputy Governor, Reserve Bank of India
- Mr. K V Kamath, Chairman, NaBFID
- Mr. Rajkiran Rai G., Managing Director, NaBFID

Panel discussions with domain experts on key topics:

- Infra as a growth enabler: Viksit Bharat 2047
- Unlocking corporate bond markets
- Green financing (climate risk and financing transition)
- Multilateral Development Banks - A take on the Indian infrastructure industry and the way forward

Date: 12th September 2024 (Thursday)
Venue: The Golconda Ballroom, The Trident, C 56, G Block BKC, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai 400 051
RSVP: infra.events@nabfid.org

Indian Bank Branch: Sadhna Complex, Ramnagar Road, Kashipur, Distt. U.S. Nagar (Uttarakhand)

PUBLIC NOTICE FOR E-AUCTION SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 read with provision to Rule 6(2) & 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor(s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Indian Bank (e-Allahabad Bank, Secured Creditor), the possession (Constructive/Physical/Symbolic Mention against each accounts) of which has been taken by the Authorised Officer of Indian Bank (e-Allahabad Bank, Secured Creditor) will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" basis on below mentioned dates, for recovery of under mentioned dues & Future interest, charges and costs etc. as detailed below. The reserve price and EMD amount for each property has been furnished below.

Sl. No.	Name of the Branch Name & Address of the Borrower / Guarantors/Mortgagor	Description of Property	Outstanding dues	Date & Time of E-Auction Last date & time of Submission of EMD and documents	A) Reserve Price (in Rs) B) EMD (in Rs) C) Bid multiplier	Contact Details
1.	Borrower:- M/s Shiv Shakti Wines, Add.-Pant Park, Station Road, Kashipur, Distt.- U.S. Nagar (Uttarakhand), Partner:-1.Mr Omprakash Bhatia S/o Late. Sh Chhimman Lal Bhatia, R/O- H.No. 239, Vaishali Colony, Village Khadakpur Devipura, Bajpur Road, Kashipur, Distt.- U.S. Nagar (Uttarakhand), 2.Ms. Jyoti D/o Sh. Pradeep Kumar, R/O- H.No. 892, Shiv Nagar	Residential House on Plot Measuring 93.21 Sq.Mt., Situated at Kharsa No. 213 Minar, Nagar Nigam H. No. 1357/1284/250, Tanda Ujjain, Near Tandu Ujjain Railway Crossing, Tehsil Kashipur, Distt.- Udhham Singh Nagar (Uttarakhand). Sale Deed executed in favor of Mrs. Ramwati devi W/o Mr. Kedar Singh, Registered on 16.07.2011 at Bahi No. 1, Jld 2592, Pages 179-198, Sr. No. 7628 at Sub Registrar Kashipur. Property Bounded as-East: 10 feet Wide road, West: Plot of Railway, North: House Of Motilal, South: House Of Sher Singh.	Rs. 43,03,544/- as on 09.06.2019 + interest, costs, other charges and expenses thereon.	25.09.2024 as on 09.06.2019 from 10:00 AM to 2:00 PM 24.09.2024 From 10:00 AM to 2:00 PM	A) Rs. 1484000/- B) Rs. 1484000/- C) Rs. 10,00,000/-	Branch Manager- Mr. Ambirish Gupta Contact No- 9718665065

Property ID: IDIBGOP008590

For Downloading Further Details and Terms & Conditions, Please Visit :- (I) <https://www.ebkray.in>

IMPORTANT NOTE FOR THE PROSPECTIVE BIDDERS

Bidders are advised to visit the website (www.ebkray.in) of our e auction service provider ebkray to participate in online bid. For Technical Assistance Please call **PSB Alliance Pvt.Ltd.** Help Desk No. **8291220220** and other help line numbers available in service providers help desk. For registration status with **PSB Alliance Pvt.Ltd.**, please contact support.ebkray@psballiance.com and for EMD status please contact support.ebkray@psballiance.com. For property details and photograph of the property and auction terms and conditions please visit: <https://www.ebkray.in> and for clarifications related to this portal, please contact help line number 8291220220. Bidders are advised to use Property ID Number mentioned above while searching for the property in the website with <https://www.ebkray.in>.

Date: 07.09.2024 Place: Kashipur Authorised Officer, Indian Bank